

fully functioning in several States. They are gaining popularity with farmers in many parts of the country. The Indian Agricultural Research Institute is, however, striving to make further improvements in the designs of the plant as well as the appliances used with it, the main objective being the development of comparatively cheaper and more efficient designs which may better suit an average farmer.

The Air-tight Storage Bins have also been quite successful. They are particularly suited to village conditions and small cultivators. The demand for these bins has been increasing from cultivators who are ready to meet the full cost of the bins.

(b) and (c). Do not arise.

12.01 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**REPORTED CONCENTRATION OF PAKISTANI
TROOPS ON INDIA-EAST PAKISTAN
BORDER**

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

The reported concentration of Pakistani troops on the India-East Pakistan border.

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): Mr. Speaker, Sir, Pakistan has concentrated its armed forces on India's borders. It is strengthening its border posts, constructing bunkers and digging trenches.

2. The Pakistani side of the India-East Pakistan border is manned by the East Pakistan Rifles, which is a semi-military force. In addition, there are also some units and formations of regular Army in East Pakistan. Their strength has been increas-

ed recently by induction of troops from West Pakistan to East Pakistan. Movement of units and formations inside East Pakistan has also been noticed. In brief, Pakistan has strengthened its border forces and has intensified other military activities. The House will not expect me to reveal the strength of the Pakistani forces and also their sector-wise deployment on the India-East Pakistan border.

3. The Government are carefully watching the situation and taking appropriate action to deal with it.

श्री जगदेव सिंह सिद्दाली (झज्जर) :
वहाँ हमारी सेना बितरी लगी हुई है ?

Shri D. C. Sharma: May I know if it is a fact that the concentration of Pakistani troops is very, very heavy near Jalpaiguri, Cooch-Bihar, Nadia and 24-Pargana District and that they have got some of the air fields evacuated and rendered them non-available for civilian use and that the Pakistani forces are arriving from West Pakistan by sea and by air?

Shri Y. B. Chavan: I think, I have answered this point in the statement itself.

Shri Buta Singh (Moga): May I know whether this reported Pakistani troops' concentration is in any way coordinated with the Chinese deployment in the Chumbi Valley?

Shri Y. B. Chavan: Naturally, we will have to take these factors into consideration while making an assessment of the situation.

Shri Hem Barua (Gauhati): Mao Tse-tung has perfected a strategy of war of uproar in the east and attack in the west. That is Mao Tse-tung's philosophy and Pakistan seems to have reversed that process. She is interested in creating an uproar in the west so as to attack us in the east. That is her overall policy. In the context of that may I know why, instead

of allowing the initiative of attacking us in different sectors of our frontier to pass into the hands of Pakistan, our Government have not themselves considered it necessary, because on the top of these statements the Pakistani official spokesman has said that Pakistani forces have already entered 20 miles of our territory in the Rann of Kutch, to take the initiative of attacking Pakistan in different sectors of our frontier so as to implement the assurance given to us on the floor of this House by our Prime Minister that our army would decide their own strategy? Is it not high time for our army to decide the strategy and eject Pakistan . . . (Interruptions).

Shri Y. B. Chavan: The hon Member has expressed his views. I think, it is much better to leave the Government and the army to decide their own course of action.

Shri Hem Barua: The hon. Minister . . .

Mr. Speaker: These are questions that are to be asked if some elucidation is required and the Minister is prepared to give on the subject. He says that this is all that he could give. Then, we ought to be satisfied with that.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): May I know whether Pakistan has evacuated three miles of her boundary of Hindus in order to concentrate her troops?

Shri Y. B. Chavan: I think, I have made one statement that they have intensified their military activities. When we say that they have intensified their military activities, it has many facets. It would be wrong for us to presume that they have done that thing everywhere. But I can only say that we are watching the situation carefully and I do not think I will be able to make a more elaborate statement than that.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं आप से पहले से हिफाजत मांग लूँ अपने सवाल के लिए

अध्यक्ष महोदय : आपको यह पहले से खयाल है कि वह ऐसा होगा कि जहाँ हिफाजत की जरूरत होगी ?

डा० राम मनोहर लोहिया : ऐसी अनेकों बातें हैं जिन से गलतफहमी हो सकती है। कम से कम आप सुन लीजिए इतना मैं चाहता हूँ।

क्या सरकार को पता है कि पिछले दशकों में पूर्व पाकिस्तान में हिन्दुओं की जान बचाते हुए कम से कम 35 मुसलमानों ने अपनी जानें दी थीं, और उसी के साथ साथ इस बार के चुनावों में हिन्दुओं ने, चाहे डर के मारे या अन्य किसी कारण से, अयूब जी को ज्यादा वोट दिए हों, लेकिन पूर्व पाकिस्तान के मुसलमानों का शायद अधिकांश हिस्सा अयूबशाही के खिलाफ गया, और पूर्व पाकिस्तान की जनता पश्चिमी पाकिस्तान को साम्राज्यशाही की शकल में देखती है। ऐसी बातें होते हुए क्या मंत्री महोदय ने कभी यह सोचा कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान की साम्राज्यशाही से, चाहे पांच दस दिन के लिए ही क्यों न हो, मुक्त कराया जाए। वैसे तो मैं जानता हूँ कि बाद में तो सारी दुनिया एक है, कहीं कोई राज्य गुलाम नहीं रह सकता

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइ ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक बात कहना भूल गया । पाकिस्तान की जनता हिन्दुस्तान की जनता से जब कभी मोका आवेगा किसी कदर कम नहीं रहेगी बल्कि ज्यादा रहेगी जो मैं महासंध की बात सोचता हूँ उसमें ।

Shri Y. B. Chavan: I think, the hon. Member did not expect me to answer it; he only wanted you to listen to this.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि क्या गवर्नमेंट ने यह बात अपने ध्यान में रख ली है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वहां 35 मुसलमानों ने अपनी जानें दीं

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

गवर्नमेंट ने यह बात ध्यान में रख ली या नहीं, अगर नहीं रख ली तो अब रख लें ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर)

क्या हिन्दुस्तान की सरकार यूनाइटेड नेशन्स में या रूस और अमरीका से बातचीत में या अल्जीरिया में होने वाले एफ्रो एशियायी सम्मेलन में इस बात को रखने की तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा बनाया हुआ एक आरटीफिशियल या फरजी राष्ट्र है, और उसको स्वतंत्र रहने का और खास करके पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में रहने का कोई तर्क नहीं है, और इस पर विश्व के राष्ट्र विचार करें और कदम उठाएं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस के बाबत क्या कह सकता हूँ । मुझे यह सुन कर अफसोस होता है । खयाल नो किमी का हो सकता है,

मगर मैं हाउस को कहना चाहता हूँ कि यह बात वहां भी एक बड़े जिम्मेवार पाकिस्तानी ने कही है कि हमारा और हिन्दुस्तान का मंशा एक है । हिन्दुस्तान इकानमिकली डेवेलप कर रहा है, हम मिलिटरीली स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं । वहां भी एक अन्सर है जो चाहता है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को मिलाया जाय । वह फतेहयाबी से मिलाना चाहते हैं और हम सिर्फ जबानी बातें करके मिलाना चाहते हैं । हमें ऐसी बातों का खयाल रखना चाहिए । हम तकसीम हो चके हैं और हम ने इस तकसीम को माना है, हम दो मुल्क हैं

एक माननीय सदस्य : जबरदस्ती ।

अध्यक्ष महोदय : जबरदस्ती हो या किसी तरह हो लेकिन हमने उसको माना । इसलिए हमको कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए जिससे कोई गलतफहमी हो और कोई उसको एक्सप्लाइट करे ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इस पर एक गृह युद्ध अमरीका में अब्राहम लिंकन के जमाने में लड़ा गया था यह कोई ऐसा फ़ालतू सवाल नहीं है ।

श्री तुकम चन्द कछबाय : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि हमारी सीमाओं पर उधर शत्रु सेनाओं का भारी जमाव है वैसे यह बहुत पुराना खतरा है और भविष्य में भी रहने वाला है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जनता रहनी है उन्हें क्या सैनिक शिक्षा के बारे में सरकार का कोई विचार है और क्या मैं जान सकता हूँ कि देश के अन्दर जो पाकिस्तानी सी० आई० डी० पकड़े जाते हैं या पाकिस्तानी खुफिया लोग पकड़े जाते हैं क्या उन पर कड़ी निगाह रखने का विचार है ताकि यह भारत के खिलाफ जासूसी करने की वृत्ति न बढ़ने पाये ?

Shri Y. B. Chavan: These are the steps which are necessary for the defence of our border. They are being considered and some of them are even acted upon.

श्री बागड़ी (हिसार) : पाकिस्तानी पंजाब से पाकिस्तानी बंगाल में जाने का हिन्दुस्तान का सिर्फ समुद्री रास्ता है जोकि न के बराबर है

एक माननीय सदस्य : हवाई जहाज हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : हवा हिन्दुस्तान की होती है और हिन्दुस्तान की इजाजत के बिना हवाई जहाज नहीं उड़ सकते ।

श्री बागड़ी : तो क्या सरकार इस बात को तय कर रही है कि ऐसी दशा में जब वह भ्रामद रफ्त भारत के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो उसको रोका जाय और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

Shri Y. B. Chavan: These are some of the matters which naturally Government have to decide upon at a proper occasion. Naturally, we have not taken any action particularly on this matter at present. (Interruption).

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है .

Shri Kapur Singh (Ludhiana): This kind of talking will do us no good.

Mr. Speaker: What could I do? It is for the Minister to give reply.

Shri Ranga (Chittoor): Either there should be a secret session or the Members themselves should write to the Defence Minister or the Prime Minister giving their suggestions, if any, instead of ventilating them here to which we cannot expect any specific answers.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक बात साफ़ कर देना चाहता हूँ . . .

Mr. Speaker: The Members also should know their responsibility. They should desist from putting these questions.

Shri Kapur Singh: It should be made perfectly clear to everybody that we do not want to take an inch of Pakistan's territory and we do not want to make any war on Pakistan. We merely want to defend ourselves and nothing more.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): We should also declare that we shall not give even an inch of our territory to Pakistan. Whether war or no war, we do not care.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, जितनी जिम्मेदारी यहां किसी भी सदस्य की हो सकती है इस मामले में उस से ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है इसलिए यह लगातार इस जिम्मेदारी की आप्र घपील मत किया करिये । हमने जो सवाल पूछे हैं वह इसलिए पूछे हैं कि दुनिया में शान्ति रहे, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान में शान्ति रहे और वह तभी होगी जब यह दोनों देश फिर से किसी न किसी महासंघ में आयेंगे इसलिए यह सवाल पूछा गया है ।

श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़) : पिछले एक महीने से विशेष कर जब से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है यह जो सीमा-बर्ती हमारे इलाके हैं इन में चाहे इस तरफ के लोग या उस तरफ के लोग पाकिस्तान के हक में जासूसी कार्यवाहियां कर रहे हैं और यह चीज समाचारपत्रों में भी छपी है, भारत के खिलाफ यह जासूसी की कार्यवाहियां करने वालों में हमारे देश के भी लोग हैं और उधर पाकिस्तान की तरफ के भी लोग हैं तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उस ने पिछले एक महीने के अन्दर इस तरह

[श्री युद्धवीर सिंह]

के भारत के विरुद्ध जासूसी करने वाले लोगों को पकड़ा है जोकि इस तरह की सूचनाएं उस पार भेजने का काम करते हैं और यदि ऐसे लोगों को पकड़ा है तो क्या वह उन की संख्या बतलायेगी ?

Shri Y. B. Chavan: It is difficult to give all this information. I cannot say that we have arrested any person as such.

श्री बागड़ी : अगर मंत्री महोदय जवाब नहीं देते हैं तो फिर ऐसे सवालों को रखने की जरूरत ही क्या है और अगर उन का जवाब नहीं दिया जाना है तो बेहतर हो कि ऐसे सवालों को बन्द ही कर दिया जाय । क तरफ देश पर हमला हो रहा है और सवाल करते हैं तो .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । आपका सवाल त नहीं था ।

श्री बागड़ी : सवाल का जवाब तो घाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये और मुझे आगे चलने दीजिये ।

श्री बागड़ी : जब मैं खड़ा होता हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते हैं और कहते हैं कि आपका यह सवाल नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि सवाल जब सदन में आ जाता है तो वह हर एक मेम्बर का सवाल बन जाता है और वह किसी एक की जायदाद नहीं रहती है ।

अध्यक्ष महोदय : सब का सवाल नहीं हो जाता है ।

श्री बागड़ी : उसका जवाब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आगे चलने देने या नहीं ? मैं दो दफे आप से कह चुका हूँ कि आप बैठ जाइये ।

श्री बागड़ी : प्रश्न क जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : जो जवाब देना था वह उन्होंने दे दिया है । अब आप न बैठ कर कार्यवाही में एकावट डाल रहे हैं और मुझे आगे नहीं चलने दे रहे हैं ।

श्री श्रींकार लाल बेरबा (कोटा) : जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया कि पूर्वी पाकिस्तान में सीमा पर सेनाओं का उधर काफी जमाव हो रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि कच्छ में पाकिस्तानियों ने काफी मात्रा में अमरीकी हथियारों का उपयोग किया है तो क्या उधर के लिए भी सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है कि वहां पर भी अमरीकी हथियार वगैरह काफ़ी आये हैं और उन का यदि प्रयोग किया जायेगा तो हम क्या करेंगे ?

Shri Y. B. Chavan: As far as I have got information, most of the important fighting arms that Pakistan has are American. So, if they are there with some strength, naturally I presume that they may be there. But I have not got any proof with me to prove that; but these are my presumptions.

श्री श्रींकार लाल बेरबा : अगर वह इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्होंने उनका का इस्तेमाल किया तो उस के बाद में हम देखेंगे कि हम क्या करें । हम जो बाद में करेंगे उसे अभी नहीं बतला सकते ।

Shri P. C. Borooah (Sibsagar): May I know whether it is a fact that the Pakistani troops deployed on the East Pakistan-Assam border are being supported not only by a large para-military organisation like Ansars but also by a large army of saboteurs residing in India? May I know the reaction of Government in this regard?

Shri Y. B. Chavan: They are training their own people, and their civil population is also being trained. I think that in some of the border areas we are also taking similar steps.

Shri P. C. Borooah: The second part of my question about saboteurs residing in India has not been answered.

Shrimati Renu Chakravarty (Barrackpore): The responsibility for the defence of the East Pakistan-West Bengal border is still that of the border police. This was the situation in the Rann of Kutch also. In view of the fact that earlier the West Bengal Government had given sufficient proof to the Central Government that mortars of US make were used on the Cooch-Bihar enclave border in West Bengal, and in view of the fact that Pakistani troops have taken over, can we be assured by the hon. Minister that as far as our country is concerned also, the border will be protected much more securely by our own troops rather than that it would be left only to the border police force?

Shri Y. B. Chavan: I have said in my original statement that Government are carefully watching the situation and proper action is taken to deal with these things. I cannot spell them out.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या हमारी सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पाकिस्तान चाहे जहाँ से भी मिल सके हमारे खिलाफ इमदाद ले लेता है ? चीनी कम्युनिज्म और पाकिस्तानी इस्लाम दोनों पॉल्स ऐपार्ट हैं, दोनों का कोई रिश्ता नहीं है लेकिन पाकिस्तानी हमारे खिलाफ वहाँ से भी इमदाद ले लेते हैं तो क्या भारत सरकार ने यह सोचा है कि हम पञ्चनिस्तान को मजबूत करें और उसे मजबूत करके हम पाकिस्तान से बदला लें ?

Mr. Speaker: It is a suggestion for action.

Shri Narasimha Reddy (Rajampet): Since Pakistan has attacked us, and

Pakistan is a military ally of America and England, and on account of that reason we cannot expect to get any military help from these Western allies of Pakistan, and on the other side, China has already attacked us and is again poised to attack us and China is a military ally and brother of Russia and we cannot expect to get any help from Russia too, is there any other nation in the diplomatic bag of our Government from which our Government expect to get military hardware in times of our dire need?

Shri Y. B. Chavan: At the present moment, we are getting aid from U.K., U.S.A. and Soviet Russia. We should presume that they will continue the same aid they are giving us at present . . .

Shri Shinkre (Marmagao): Why should you presume?

Shri K. C. Sharma (Sardhana): Because it is logical.

Shri Y. B. Chavan: As to what will happen in a certain hypothetical situation, it is difficult to anticipate.

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar North): Is it a fact that Pakistani troops are carried in superior planes over our territory into the East Pakistan border? Have Government verified that report? If it is correct, what steps have been taken besides lodging a protest note?

Shri Y. B. Chavan: I have not got any information about that.

Shri Nath Pal (Rajapur): The Defence Minister's admission that Pakistani forces and arms are being concentrated on the frontiers, the continuously increasing number of incidents of intrusion in that border, the recent foray in Kutch and the failure of the Government of India to respond in adequate terms plus their acquiescence in the tacit cease-fire which is coming in Kutch have given the impression, as the *Sunday Times* of London has pointed out, that this special zeal for peace is not a reflection of any special love for peace but a sign

[Shri Natn Pai.]

of unpreparedness. What are Government doing to remove this impression and to show that we will carry out what we have pledged to Parliament? I want specific replies to the two questions: one regarding removing the impression, as pointed out by the *Sunday Times*, that the Indians run away leaving everything; we hate to read this kind of thing, which is Pakistani-inspired. But what do we do to refute the inference drawn from this kind of propaganda against us? The second is about implementing your promise to Parliament.

Shri Y. B. Chavan: First of all, I must say that this impression, which is deliberately being created, is not the impression, of the friends of India. I think we should not fall a victim to that. When they say that the army is running away, it is a deliberate, false impression, that is being created. Really speaking, our armed forces are gallantly fighting and will continue to fight, when it comes to that. That is one thing.

As regards the effort for peace, the interpretation that is being put by any correspondent should not be accepted that way. This peace effort that is being continued, and is being responded to, is not any sign of weakness. Certainly, any cease-fire that may be accepted has to be consistent with our stand which has been very amply explained by our Prime Minister. It will always be consistent with the honour of the country. Ultimately, we are bound to implement the pledge that is given to this Parliament.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Is it a fact that Government have received reports from Intelligence, and other equally or more reliable sources, to the effect that Chinese military officers and technicians have in the recent past visited and inspected the West Bengal-East Pakistan border and are still surreptitiously working on that frontier at various strategic points? If so, have Government made a fair assess-

ment of the military implications of the joint threat of China and Pakistan in that area?

Shri Y. B. Chavan: As I said, that assessment of that possibility is made. There were reports that some specialists of the Chinese army were seen in East Pakistan and even in West Pakistan. But personally, I do not attach too much importance to this particular fact, though it has certainly political implications. I do not want to underestimate them at the same time.

But in case both these armies and both these nations decide to do something about India, one thing is certain. As far as the spirit of India is concerned, as far as our attitude is concerned, we will have to face it. I do not want again to be caught on the wrong foot. Dada Kripalani said the other day that it will be humbug to make a statement like this. But even when such an eventuality comes, what must be the attitude of our country? Our country will have to face them bravely. What else can we do?

Shri Hari Vishnu Kamath: Well said—hope you will act up to it.

Shri P. Venkatasubbalah (Adoni): Has it been brought to the notice of Government that foreign correspondents who are here do not have an objective assessment of the country's military strength and give a distorted version in their foreign press? If so, what effective steps are Government taking to put a check on the despatch of such distorted versions to the foreign press which distort the image of our country?

Shri Y. B. Chavan: Most of the reports that have gone as far as I know—I am prepared to stand corrected about it—from the foreign correspondents are from the Karachi side. There are some people who are really speaking inclined to create an image of India. About that I must say that we must be careful not to fall victim of that.

(Q)

Shrimati Jyotsna Chanda (Cachar): In view of the concentration of Pakistani troops in the border, may I know from the Government whether Government proposes to shift the residents who are in the border, most of them belong to minority community, to stop methods of infiltration and sabotage particularly in Cachar-Goalpara borders?

Shri Y. B. Chavan: We do not want to take any action which will create panic in the minds of our people but steps which are necessary for the security of our defence will certainly be taken and are being taken.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : भारतीय प्रधान मंत्री के शब्दों में जिस प्रकार धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती जा रही है, पाकिस्तान के हथियारों में भी उसी प्रकार गर्मी बढ़ती जा रही है। सुना जाता है कि कल कच्छ में पाकिस्तान ने अपने आक्रमण को और अधिक तेज कर दिया है। संरक्षण मंत्री ने कल कहा था कि जम्मू-काश्मीर में पहले से अधिक घटनाएँ बढ़ गई हैं। अब उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के बारे में बताया है। शायद कल-परसों वह लाहौर और अमृतसर की घटनाओं का भी इसी प्रकार विवरण दें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या संरक्षण मंत्री इस 48 करोड़ के देश को इस लोक सभा के बीच केवल अशुभ समाचारों की सूचना ही देने रहेंगे या कोई वह समय भी जल्दी आयेगा, जब वह हम को शुभ समाचार भी सुनायेंगे।

Shri Y. B. Chavan: It is a suggestion of Prakash Vir Shastriji and I have taken note of it.

Mr. Speaker: Papers to be laid.

12:28 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICES AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT (Query)

Shri Daji (Indore): Sir I have given a call-attention notice on the

arrest of the Jamshedpur workers. There is no assembly in Delhi and the Parliament is the only forum where we can raise it.

Mr. Speaker: Order, order. He should not take it up in this manner.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): May we come and speak to you? Because, this is very important. There have been so many arrests. Only because he happens to be a worker of the Tatas, he is arrested . . . (Interruptions.)

Mr. Speaker: I will not be prepared to answer in this manner. I assure the hon. Members of one thing.

श्री मधु लिये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और काम-रोको प्रस्ताव दिये हैं और आप बराबर उनको अस्वीकार करते जा रहे हैं। ये बहुत राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं। या तो आप उन को यहाँ पर पढ़ कर सुनाइये और सदन उन पर फैसला करे या आप अपने विवेक से फैसला कर के उन को यहाँ रखिए, ताकि उन पर मुकम्मल बहस हो पाये।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी सुन लीजिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जो मेम्बर साहबान पहले बैठे हैं, जब मैं ने उन को इजाजत नहीं दी है, तो मैं आप को कैसे इजाजत दूंगा ?

श्री बागड़ी : यह मुझे पता है कि आप इजाजत तो नहीं देंगे, लेकिन अगर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मेम्बर यहाँ पर अपनी बात कह रहा है, तो मुझे भी अपनी बात कह लेने दीजिए।

मैं यह बात सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अबान से कुछ कहने